



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 33]

नई दिल्ली, अगस्त 20—अगस्त 26, 2017, शनिवार/श्रावण 29—भाद्र 4, 1939

No. 33]

NEW DELHI, AUGUST 20—AUGUST 26, 2017, SATURDAY/SRAVANA 29—BHADRA 4, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 254.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल, भंडारी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जहां तक उनका संबंध भंडारी (स्तर-III) के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सशस्त्र सीमा बल, भंडारी (स्तर-III) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, भंडारी (स्तर-III) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहृत.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **अधिवर्षिता.**—इन नियमों के अधीन कोई व्यक्ति उस माह जिसमें वह साठ वर्ष की आयु पूरी करता है के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. भंडारी (स्तर-III)	2★ (2017) ★कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर - 5	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सशस्त्र सीमा बल के ऐसे भंडारी (स्तर-II) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल — अध्यक्ष 2. कमाण्डेंट या क्षेत्र संगठक, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य 3. सहायक कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 17/21/एसएसबी/सीएससी/क्षेत्र/समूह 'ग'/2016/एसएफएस]

विनोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th August, 2017

G.S.R. 254.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sashastra Seema Bal, Store-Keeper Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010, in so far as it relate to the post of Store Keeper (Level III), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Sashastra Seema Bal, Store-Keeper (Level III) Group 'C' Post, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Store-Keeper (Level III) Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, its classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Superannuation.**—A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that a person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Store Keeper (Level- III)	2*(2017) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Level 5	Non- selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, If any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or re-employment grades from which promotion or deputation or absorption or re-employment to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not- applicable	Not- applicable	By promotion	<p>Promotion : From amongst Store Keeper (Level-II) of Sashastra Seema Bal with five years' regular service in level 4 in the pay matrix.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotional Committee exists what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :—	Not applicable
1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal -Chairman	
2. Commandant or Area Organiser, Sashastra Seema Bal -Member	
3. Assistant Director, Sashastra Seema Bal -Member	

[F. No. 17/21/SSB/CSC/Area/Gp 'C'/2016/SFS]

VINOD KUMAR, Under Secy.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 255.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अधीक्षक ग्रेड—I, समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अधीक्षक ग्रेड—I, समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2014 के;

(I) नियम 1 के उप-नियम (1) के शब्दों और अंकों "अधीक्षक ग्रेड—I" के स्थान पर "सहायक प्रशासनिक अधिकारी" रखा जाएगा;

(II) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं";

(III) अनुसूची के:—

(क) स्तंभ (1) के अधीन प्रविष्टि के शब्दों और अंकों "अधीक्षक ग्रेड—I" के स्थान पर "सहायक प्रशासनिक अधिकारी" रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ग) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"स्तर— 7"

(घ) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों,—

(क) "वेतन बैंड—2, 9300—34800 रुपये ग्रेड वेतन 4200 रुपये" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 6" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा ;

"टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से, जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्निश्चित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्वनियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी" वेतन मैट्रिक्स में स्तर" में की गई सेवा समझा जाएगा" ।

[फा. सं. 49/4/2016—एस एण्ड डडी/पीएफ—5/ईडब्ल्यू—2]

माधवी मोहन, अवर सचिव (ईडब्ल्यू—1)

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 111, तारीख 26 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

New Delhi, 17th August, 2017

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Superintendent Grade-I, Group 'B' Gazetted Posts Recruitment Rules, 2014.

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Central Public Works Department, Assistant Administrative Officer, Group 'B' Gazetted Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Superintendent Grade- I, Group 'B' Gazetted Posts Recruitment Rules, 2014,—
(I) in rule 1, in sub-rule (I), for the words and figure "Superintendent Grade-I", the words "Assistant Administrative Officer" shall be substituted;
(II) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—
"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.";
(III) in the schedule,—
(a) in the entry under column (1), for the words and figure "Superintendent Grade-I", the words "Assistant Administrative Officer" shall be substituted;
(b) for the heading to column (4), the following heading shall be substituted, namely:-
"Level in the pay matrix";
(c) for the entry under column (4), the following entry shall be substituted, namely:-
"Level 7";
(d) in the entries under column (11),—
(A) for the words and figures "pay band-2, ₹ 9300-34800/ with grade pay ₹ 4200/- ", the words and figure "level 6 in the pay matrix" shall be substituted;
(B) for note 2, the following Note shall be substituted, namely:-
"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix and extended based on the recommendations of the said Pay Commission".

[F. No. 49/4/2016-S&D /PF-5/EW-II]

MADHAVI MOHAN, Under Secy. (EW-I)

Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 111 dated the 26th May, 2014.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 256.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सहायक वास्तुक भर्ती नियम 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सहायक वास्तुक भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सहायक वास्तुक भर्ती नियम 2013 में (इसके बाद जैसे कि उक्त नियमों में संदर्भित किया गया है।)

(I) नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“2. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. उपर्युक्त नियम के अनुसूची के स्तम्भ (4) में,

(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक का प्रयोग किया जायेगा, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

(ख) वर्तमान प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि का प्रयोग किया जायेगा, अर्थात् :-

“स्तर 8”;

[फा. सं. 49/4/2016-एस एण्ड डी/पीएफ-III/ई डब्ल्यू-I]

माधवी मोहन, अवर सचिव

नोट : प्रमुख नियम दिनांक 26 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 571 (ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं।

New Delhi, the 18th August, 2017

G.S.R. 256.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President thereby makes the following rules to amend the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Assistant Architect Recruitment Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Housing & Urban Affairs, Central Public Works Department Assistant Architect Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Assistant Architect Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

“2 Number of post, its classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

3. In the said rules, in the Schedule, in column (4) —

(a) for the heading the following heading shall be substituted, namely:—

“Level in the pay matrix”;

(b) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“Level 8”;

[F. No. 49/4/2016-S&D/PF-III/EW-I]

MADHAVI MOHAN, Under Secy.

Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 571(E) dated the 11th July, 2013.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 257.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (विदेश में भारतीय मिशनों में वैज्ञानिक अताशे) भर्ती नियम, 1995 को उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विदेशों में भारतीय मिशनों में वैज्ञानिक अताशे के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विदेश में भारतीय मिशनों में वैज्ञानिक अताशे) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं अदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैज्ञानिक अताशे	4* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 13 क (1,31,100-2,16,600 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या कानूनी या देश या विदेश में स्वायत्त संगठन में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद ;</p> <p>(क)</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों ; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13(1,18,500-2,14,100 रु.) या समतुल्य के पदों में नियमित सेवा दो वर्ष धारण कर रहे हो ; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रु.) या समतुल्य के स्तर में नियमित छः वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) नीचे दिए अनुसार अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक अर्हताएं और अनुभव:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री;</p> <p>(ii) औद्योगिक में अनुसंधान और विकास और औद्योगिक में विकास तथा प्रौद्योगिकी संगठनों या वैज्ञानिक क्रियाकलापों में बारह वर्ष का अनुभव जिनमें से विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, योजना और सहयोग में प्रबंधकीय क्षमता छः वर्ष; और</p> <p>(iii) स्नातक और उत्तरवर्ती स्तर पर विज्ञान विषयों से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर विज्ञान के संघटकों में से कम से कम एक विषय होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय अर्हताएं और अनुभव :</p> <p>(i) अंग्रेजी से इसके अतिरिक्त आधुनिक यूरोपीयन या जर्मन या रूसी या जापानी भाषा का ज्ञान;</p> <p>(ii) प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में पश्च डॉक्टरेट अनुसंधान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

<p>डॉक्टरेट डिग्री या ऐसे विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा प्रमाणन द्वारा साक्ष्य के रूप में अनुसंधान संस्थान और विज्ञान उद्घरण अनुक्रमणित (वि.नु.अनु.) जर्नलो में अनुसंधान कार्य।</p> <p>(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर विषयक क्षेत्र में व्यापक अनुभव जिसमें प्रतिलिप्याधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट और आविष्कार पर महत्व दिया गया है।</p> <p>टिप्पणः—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[फा. सं. क.12018/02/10-प्रशा.1(क)]

बी.एस. रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)**

New Delhi, the 16th August, 2017

G.S.R. 257.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science & Technology (Scientific Attache in the Indian Missions Abroad) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Attache in the Indian Missions abroad in the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely :—

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology (Scientific Attache in the Indian Missions Abroad) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix .**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .**—No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Scientific Attache.	4* (2017) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13A (₹ 1,31,100 - 2,16,600)	Not applicable.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Scientists or Technologists working in Central Government or State Government or Universities or recognised research Institutions or semi-government or statutory or autonomous organisations in India or abroad:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in posts in the level 13 in pay matrix (₹ 1,18,500 – 2,14,100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' regular service in the level 12 in pay matrix (₹ 78,800 – 2,09,200) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience as under:-</p>	Not applicable	Not applicable

	<p>Essential qualifications and experience:</p> <p>(i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent;</p> <p>(ii) twelve years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which six years in managerial capacity in science and technology programme, planning development and cooperation; and</p> <p>(iii) should have at least one of the components of Natural Science, Mathematics, Information Technology and Computer Science from Science streams at Graduate and subsequent levels.</p> <p>Desirable qualifications and experience:</p> <p>(i) knowledge of a modern European or German or Russian or Japanese language in addition to English;</p> <p>(ii) post-doctorate research in Natural or Agricultural Sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognized University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in Science Citation Indexed (SCI) journals.</p> <p>(iii) wide experience in inter-disciplinary areas of Science and Technology with an emphasis on copyrights, intellectual property rights, patents and inventions.</p> <p>Note.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisations or Departments of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[F. No. A.12018/02/10-A.I(A)]

B. S. RAWAT, Jt. Secy.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त कार्यालय)**

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 258.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन समूह “ग” पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, समूह “ग” पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन समूह “ग” पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।” ।

3. उक्त नियम की अनुसूची में, —

(क) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(अ) स्तंभ (4) में, -

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्
“वेतन मैट्रिक्स में स्तर।”;

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर-4 (25500-81100 रु.)”;

(आ) स्तंभ (11) में, —

(I) “प्रोन्नति” उपशीर्षक के अधीन, —

(i) “ग्रेड वेतन 1900 रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) “प्रतिनियुक्ति” उपशीर्षक के अधीन टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा ;

(ख) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर-2 (19900-63200 रु.)”;

(आ) स्तंभ (11) में, -

(I) “विभागीय अर्हता परीक्षा” उपशीर्षक के अधीन,-

(i) “1800 रु. के ग्रेड वेतन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) “प्रोन्नति” उपशीर्षक के अधीन,-

(i) “ग्रेड वेतन 1800 रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ;

(ग) आशुलिपिक श्रेणी-II के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर-4 (25500-81100 रु.)”;

(घ) बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद से संबंधित क्र. सं. 4 के सामने स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर-1 (18000-56900 रु.)”;

[फा. सं. ए-12018/1/2016-ए (एनजी)]

अनिल तहलान, उप निदेशक (प्रशासन)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि 250 द्वारा तारीख 07 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER, MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

New Delhi, the 21st August, 2017

G.S.R. 258.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises-Development Organisation, Group ‘C’ Posts Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises-Development Organisation, Group ‘C’ Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises-Development Organisation, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Upper Division Clerk,-

(A) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:--

“Level in the pay matrix.”;

(ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-4 (Rs.25500-81100/-).”;

(B) in column (11),

(I) under sub-heading “Promotion”,-

(i) for the words, figures and letters “pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 1900”, the words, figures and letters “Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under sub-heading “Deputation”, Note 4 shall be omitted;

(b) against serial number 2 relating to the post of Lower Division Clerk,-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-2 (Rs. 19900-63200/)”;

(B) in column (11),-

(I) under sub-heading “Departmental qualifying examination”,-

(i) for the words, figures and letters “Pay Band-1, Rs. 5200-20200/ with grade pay of Rs.1800”, the words, figures and letters “Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under sub-heading “Promotion”,—

(i) in item (b), for the words, figures and letters “pay band-1, Rs. 5200-20200/ with grade pay of Rs.1800”, the words, figures and letters “Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(c) against serial number 3 relating to the post of Stenographer Grade-II, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-4 (Rs.25500-81100)”;

(d) against serial number 4 relating to the post of Multi-Tasking Staff, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-1 (Rs.18000-56900)”.

[F. No. A-12018/1/2016-A(NG)]

ANIL TEHLAN, Dy. Director (Administration)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 250, dated 13th October, 2012.

नई दिल्ली 21 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 259.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह “ग” पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन स्टाफ कार ड्राइवर (समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

3. उक्त नियम की अनुसूची में, -

(क) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, -

(अ) स्तंभ (4) में, —

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्
“वेतन मैट्रिक्स में स्तर।”;

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर-5 (29200-92300 रु.)”;

(आ) स्तंभ (11) में, -

(I) “प्रोन्नति” उपशीर्षक के अधीन, -

(i) “वेतन बैंड -1, 5200-20,200 रु + ग्रेड वेतन 2400 रु.” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) “प्रतिनियुक्ति” उपशीर्षक के अधीन, -

(i) मद (ख) में “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(ख) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी- II) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, -

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर-4 (25500-81100 रु.)”;

(आ) स्तंभ (11) में, -

(I) “प्रोन्नति” उपशीर्षक के अधीन, -

- (i) “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) “प्रतिनियुक्ति” उपशीर्षक के अधीन, -

- (i) मद (ख) में, “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ii) टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा ;

(ग) स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, -

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“ स्तर-2 (19900-63200 रु.)”;

(आ) स्तंभ (11) में, - “प्रतिनियुक्ति/आमेलन” उपशीर्षक के अधीन “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12018/2/2016-ए (एनजी)]

अनिल तहलान, उप निदेशक (प्रशासन)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि 171 द्वारा तारीख 11 जुलाई, 2013 को प्रकाशित किया गया था ।

New Delhi, the 21st August, 2017

G.S.R. 259.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises-Development Organisation, Staff Car Drivers (Group ‘C’ Posts), Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises-Development Organisation, Staff Car Drivers (Group ‘C’ Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises-Development Organisation, Staff Car Drivers (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.—The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”

3. In the said rules, in the Schedule,-
- (a) against serial number 1 relating to the post of Staff Car Driver (Grade-I),-
- (A) in column (4),-
- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:--
“Level in the pay matrix.”;
- (ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
“Level-5 (Rs. 29200-92300/.”;
- (B) in column (11),-
- (I) under sub-heading “Promotion”,-
- (i) for the words, figures and letters “Pay Band-1, Rs. 5200-20200/ with Grade Pay of Rs. 2400”, the words, figures and letters “Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (II) under sub-heading “Deputation”,-
- (i) In item (b), for the words, figures and letters “pay band-1, Rs. 5200-20200/ with grade pay of Rs. 2400”, the words, figures and letters “Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/)” shall be substituted;
- (ii) Note 4 shall be omitted;
- (b) against serial number 2 relating to the post of Staff Car Driver (Grade-II),-
- (A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-
“Level-4 (Rs. 25500-81100/);”;
- (B) in column (11),-
- (I) under sub-heading “Promotion”,-
- (i) for the words, figures and letters “Pay Band-1, Rs. 5200-20200/ with grade pay of Rs. 1900”, the words, figures and letters “Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/)” shall be substituted;
- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (II) under sub-heading “Deputation”,-
- (i) in item (b), for the words, figures and letters “pay band-1, Rs. 5200-20200/ with grade pay of Rs. 1900”, the words, figures and letters “Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/)” shall be substituted;
- (ii) Note 4 shall be omitted;
- (c) against serial number 3 relating to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade),-
- (A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-
“Level-2 (Rs. 19900-63200/);”;
- (B) in column (11), under sub-heading “Deputation/absorption”, for the words, figures and letters “pay band-1, Rs. 5200-20200/ with grade pay of Rs. 1800” at both the places, the words, figures and letters “Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/)” shall be substituted.

[F. No. A-12018/2/2016-A(NG)]

ANIL TEHLAN, Dy. Director (Administration)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 171, dated the 13th July, 2013.